



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 434] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 1976/पौष 9, 1898

No. 434] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1976/PAUSA 9, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December 1976

G.S.R. 962(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1976.

2. In the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12.—

(i) in sub-rule (1), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that form ‘C’ in force before the commencement of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1974, or before the commencement of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1976, may also be used upto the 31st December, 1977 with suitable modifications;”.

(ii) in sub-rule (5), in the third proviso, for the figures “1976”, the figures “1977” shall be substituted.

3. In form 'C' appended to the said rules, in each of the three parts marked as "COUNTERFOIL", "DUPLICATE" and "ORIGINAL"—

(i) for the words, asterisk and letters—

"Certified that the goods

\*\*Ordered for in our purchase

Order No.....dated.....

purchased from you as per Bill/

cash memo, stated below\*",

the following shall be substituted, namely :—

"Certified that the goods

\*\*Ordered for in our purchase

Order No.....dated.....

and supplied as per Bill/cash memo/challan No.....

dated.....as stated below\*

purchased from you as per Bill/Cash memo/

challan No.....dated.....

as stated below"

(ii) after the words "particulars of Bill/cash memo", the word "/challan" shall be inserted.

4. In form 'G' appended to the said rules,—

(i) after the words "for the payment of the said sum" occurring immediately before the Schedule, the words, "whenever called upon to do so by the assessing authority" shall be inserted;

(ii) in the Schedule, in the first paragraph, after the words "shown by the Government", the words "or by reason of any change in the constitution of the Obliger in cases where the Obliger is not an individual" shall be inserted.

[No. F. 28/18/76-ST]

O. P. MEHRA, Dy. Secy,

**राजस्व और बैंकिंग विभाग**

**(राजस्व पक्ष)**

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1976**

सा० का० नि० 962(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर-अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) (संशोधन) नियम, 1976 है।

2. केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 में,—

(i) उप-नियम (1) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) (संशोधन) नियम, 1974 के प्रारम्भ के पूर्व, या केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) (संशोधन) नियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व, प्रवृत्त प्ररूप 'ग' का प्रयोग, समुचित उपांतरणों के साथ, 31 दिसम्बर, 1977 तक भी किया जा सकता है"

- (ii) उप-नियम (5) में, तृतीय परन्तुक में, “1976” श्रंक के स्थान पर “1977” श्रंक रखे जायेंगे।

3. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप ‘ग’ में, “प्रतिपण” “द्वितीय प्रति” तथा “मूल प्रति”, तीनों भागों में से प्रत्येक में—

- (i) “प्रमाणित किया जाता है कि हमारे ऋय आवेश सं०.....तारीख ..... में आदिष्ट\*\*/नीचे उल्लिखित बिल; कशमीमों के अंतर्गत ऋय किया गया\* माल”, शब्दों तारा चिह्नों और अक्षरों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात :

“प्रमाणित किया जाता है कि हमारे ऋय आवेश सं०.....तारीख .....में आदिष्ट\*\* तथा नीचे उल्लिखित बिल, कशमीमो, चालान सं०.....तारीख.....के अन्तर्गत आपूर्ति किया\* गया माल”।

- (ii) “बिल, कशमीमो की विशिष्टियां” शब्दों के पश्चात “चालान” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

4. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप ‘छ’ में,—

- (i) “उक्त राशि के संदाय के लिए” शब्दों के पश्चात जो कि अनुसूची के ठीक पहले आए हैं “जब कभी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) अनुसूची में, प्रथम पैरा में, “के कारण” शब्दों के पश्चात “अथवा वहां जहां बाध्यताधारी व्यष्टि नहीं है, बाध्यताधारी के गठन में किसी परिवर्तन के कारण” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[सं० फा० 28/18/76-एस० टी०]

ओ० पी० मेहरा, उप-सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा निर्यत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

